

## प्रेस नोट

जनपद रामपुर

दिनांक 19-10-2020

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में की गई कार्यवाही-

थाना अजीमनगर:- चोरी की घटना में प्रकाश में आये 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार तथा 01 अद् नाजायज तमंचा, 01 चाकू व चोरी किये 4600 रूपये नकद, 02 अंगूठी सफेद धातु, 02 पाजेब सफेद धातु व 06 आधार कार्ड बरामद-

दिनांक 13-10-2020 को अज्ञात चोर द्वारा वादी श्री मौ0 आलम पुत्र श्री सलीम अली निवासी हकीमगंज थाना अजीमनगर, रामपुर के घर में घुसकर अलमारी में रखे नगद, सोने चांदी के आभूषण व आधार कार्ड चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना अजीमनगर पर मु0अ0सं0-300/20 धारा 457,380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 19-10-2020 को थाना अजीमनगर, रामपुर पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर चैकिंग के दौरान खीजरपुर की पुलिया से 03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 01 मारूति इको, 01 अद् नाजायज तमंचा 12 बोर मय 02 कारतूस जिन्दा 12 बोर, 01 अद् चाकू तथा वादी श्री मौ0 आलम के घर से चोरी किया गया सामान व नगदी बरामद हुई। एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

01- मन्सूर पुत्र मकसूद शाह निवासी मौहल्ला चमारान कस्बा व थाना केमरी, रामपुर।

02- मौ0 अरबाज पुत्र मौ0 आशिक नि0मौहल्ला चमारान कस्बा व थाना केमरी, रामपुर।

03- नियाज पुत्र कासम शाह नि0 मौहल्ला सिंघाडियान कस्बा व थाना केमरी, रामपुर।

बरामदगी-

01- अभियुक्त मन्सूर के कब्जे से 01 अद् नाजायज तमंचा 12 बोर मय 02 कारतूस जिन्दा 12 बोर तथा चोरी किये 1600 रूपये नगद, 02 अंगूठी सफेद धातु व 03 आधार कार्ड बरामद हुए।

02- अभियुक्त मौ0 अरबाज के कब्जे से 01 अद् नाजायज चाकू तथा चोरी किये 1500 रूपये नगद, 01 पाजेब सफेद धातु व 02 आधार कार्ड बरामद हुआ।

03- अभियुक्त नियाज के कब्जे से चोरी किये 1500 रूपये नगद, 01 पाजेब सफेद धातु व 01 आधार कार्ड बरामद। कार्यवाही-

01- मु0अ0सं0-300/20 धारा 457,380,411 भादवि।

02- मु0अ0सं0-301/20 धारा 3/25 आम्स एक्ट बनाम मन्सूर।

03- मु0अ0सं0-302/20 धारा 4/25 आम्स एक्ट बनाम मौहम्मद अरबाज।